



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 255) पटना, मंगलवार, 26 मार्च 2013

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2013

सं0 3/एच०- 02/2012-सा०प्र०-5160—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-03/एच०-02/2012-सा०-4840 दिनांक 20.03.2013 द्वारा दिनांक 29.03.2013 (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के अवसर पर राज्य स्थित सभी बैंकों के लिए एन0 आई0 एक्ट के तहत पूर्व से घोषित अवकाश को रद्द किया गया है।

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्थित सभी बैंकों की केवल सरकारी लेन-देन वाली शाखाओं के लिए ही दिनांक 29.03.2013 (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के अवसर पर राज्य में एन0आई0एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाश को रद्द किया जाता है। राज्य स्थित सभी बैंकों की शेष शाखाओं में अधिसूचना संख्या-16945 दिनांक 12.12.2012 द्वारा उक्त अवसर पर एन0आई0एक्ट के तहत पूर्व से घोषित अवकाश को बहाल किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बशिष्ठ सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 255-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>